


रचयिता—  
प० जगन्नारायणान्न शर्मा  
“कविपुंजर”



प्रकाशक—  
बी० पी० गुप्त एण्ड को०,  
२२, मछुआबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ।